

आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत
अभ्यास प्रश्न-पत्र - द्वितीय
विषय - हिंदी
कक्षा - VI

समय : 3:00 घंटे

पूर्णांक- 100

नोट:

इस प्रश्न-पत्र में चार खंड हैं - क, ख, ग एवम् घ
चारों खण्डों के उत्तर देना अनिवार्य है।
यथासंभव प्रत्येक खंड के उत्तर क्रमशः दीजिए।

खंड - क

1. दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुनिए :- [5]

(क) रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था?

1. बाजीराव पेशवा
2. गंगाधर राव
3. नाना धुंदूपंत पेशवा
4. इनमें से कोई नहीं

(ख) चमकीला पत्थर पहले कैसा रहा होगा?

1. छोटा तथा चमकीला
2. बड़ा तथा नुकीला
3. छोटा तथा चमकदार
4. बराबर तथा अधिक चमकीला

(ग) 'गात' शब्द का अर्थ है:-

1. माता
2. गाना
3. हवा
4. शरीर

(घ) 'राजनीतिक' शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है :-

1. टिक
2. ईक
3. इक
4. नीतिक

(ङ) टोकरी बनाने की तरकीब किस पक्षी के घोंसले से सूझी होगी?

1. कबूतर के
2. बया के
3. गोरिया के
4. कौवा के

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :- [5]

- क. विद्यार्थियों को प्राचीन वस्तुओं के साथ-साथ _____ वस्तुओं का भी संग्रह करना चाहिए।(नया /नवीन)
- ख. महात्मा गांधी के ___ पर सभी शोकाकुल थे । (मृत्यु /निधन)
- ग. जानने की इच्छा _____ । (जिज्ञासु/ जानकारी)
- घ. सीता की पुरानी _____उसके घर आई है। (अली /अलि)
- ङ. "बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं _____" (भाववाचक /जातिवाचक)

III. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए :- [5]

परखना, टापू, निस्पृह, ज्योनार, अधिवेशन ।

खंड- ख. [2x10=20]

1.निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द व्यक्ति को उदात्त एवं महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा न हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान-प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान-प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है, जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हावभाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है।

- (क) शिक्षक क्या होता है ?
- (ख) बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए ?
- (ग) शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए?
- (घ) बातचीत में आदान-प्रदान किसे कहते हैं ?
- (ङ) उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए ।

2. लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया?
3. अयोध्या नगरी को देखकर भरत के मन में क्या भाव उठे?
4. एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द अस्त्र और शस्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए।
5. कारक किसे कहते हैं ?
6. निम्नलिखित शब्द युग्म का अंतर बताकर इन का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए :-
गृह, ग्रह, दिशा, दशा

खंड - ग [3x10=30]

1. गोल, चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता?विस्तार से उत्तर लिखो।
2. "वन के मार्ग में" कविता के दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए ।
3. बाँस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी?

4. सीता से राम के बल-पौरुष की प्रशंसा सुनकर रावण पर क्या प्रभाव पड़ा?
5. सुग्रीव से मिलकर राम को क्या पता चला?
6. राम ने विभीषण का कौन सा आग्रह स्वीकार कर लिया?
7. निम्न शब्दों के विलोम शब्द बनाकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए :-
प्राचीन, अनुकूल, जीवन
8. संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
9. तीन नित्य पुल्लिंग और तीन नित्य स्त्रीलिंग शब्द लिखिए।
10. वचन के भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।

खंड- घ [7x5=35]

1. गांधीजी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं? लिखिए।
 2. "पर सारे देश के.....अपने-अपने विद्यापति हैं।" इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर लिखिए।
 3. नंदीग्राम में राम का स्वागत किस प्रकार हुआ?
 4. जटायु कौन था? उसने रावण पर हमला क्यों किया?
 5. व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के अंतर को स्पष्ट कीजिए।
 6. कारक के कितने भेद हैं? उनके नाम और विभक्ति चिन्ह लिखिए।
 7. सर्वनाम के कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।
-